बर्ष :-04 **अंक**:-247 मुरादाबाद

28 **December 2024**

(Saturday)

पृष्ठ:-08 मूल्यः- ३.०० रूपया

प्रातः कालीन अरादाबाद से प्रकाशित य तिस्तु सच भारत सरकार से रजिस्टर्ड RNI No.UPBIL/2021/83001

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर; शाह से

लेकर सोनिया तक, घर जाकरू किया पूर्व PM को नमन रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेता पूर्व पीएम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके आवास पर पहुंचे।भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री

पूर्व पीएम मनमोहन

सिंह के निधन पर यूपी

में भी सात दिन का

राजकीय शोक, जारी

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन

सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश

में सात दिनों के लिए

राजकीय अवकाश घोषित

किया गया है। इस संबंध में

आदेश जारी कर दिया गया

है।देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.

मनमोहन सिंह के निधन पर

उत्तर प्रदेश में भी सात दिनों

के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है। जो कि

26 दिसंबर से प्रारंभ होकर

एक जनवरी तक चलेगा। इस

संबंध में आदेश जारी कर

दिए गए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय

ध्वज आधा झुका रहेगा और

राज्य सरकार की ओर से

किसी मनोरंजक कार्यक्रम

का आयोजन नहीं किया

जाएगा।पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 92 साल

की उम्र में दिल्ली के एम्स में

बृहस्पतिवार की रात निधन हो

गया। उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों

की वजह से गुरुवार रात 8=06

बजे भर्ती कराया गया था। रात

9=51 बजे उन्हें मृत घोषित कर

दिया गया। मनमोहन सिंह

प्रखर अर्थशास्त्री थे। 1991

में देश में शुरू किए गए

आर्थिक उदारीकरण के वे

शिल्पकार रहे। 2004 से

2014 तक वे प्रधानमंत्री रहे।

उनके निधन से देशभर में

शोक की लहर है। केंद्र सरकार

ने कल ही सात दिन का

राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया

था। शुक्रवार को यूपी सरकार

ने भी सात दिन का राजकीय

घोषित

दिया।मनमोहन सिंह का पूरा

राजनीतिक सफर-1954

पंजाब विश्वविद्यालय से

अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर

उपाधि प्राप्त की। 19*57*न

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से

इकॉनमिक्स ट्रिपोस (तीन

वर्षीय डिग्री प्रोग्राम)। 1962-

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से

अर्थशास्त्र में डी.फिल

किया गया आदेश



मनमोहन सिंह के आवास पर सक्षिप्त समाचार पहुंचे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर

2024 को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन के बाद 26 दिसंबर, 2024 से एक जनवरी, 2025 तक पूरे देश में सात दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान, उन सभी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज

मोदी ने डॉ. मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलिप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने शोक संदेश में कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जीवन देशवासियों के लिए

उदारीकरण की नींव रखी। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो समर्पण था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतीक था। उनकी सौम्यता, बौद्धिकता उनके जीवन की पहचान रही। मुझे याद है, जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था तो मैंने कहा था कि उनका बतौर सांसद समर्पण सीखने लायक है। उच्च पदों पर रहने के बावजूद अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वे सभी के लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुले मन से चर्चा होती थी। दिल्ली आने के बाद भी उनसे

सेवाएं दीं। पूर्व पीएम पीवी

नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त

मंत्री रहे और देश में आर्थिक

समय पर चर्चा होती थी, चर्चाएं और मुलाकातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के संवेदानाएं अपिंत

समय -

करता हूं। अमित शाह ने भी दी श्रद्धांजलिकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे हैं। उन्होंने नम



राजकीय शोक की घोषणाकेंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर,

पारंपरिक रूप से फहराया जाता है और सभी आधिकारिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे।पीएम सरकार में सेवाएं दीं। उन्होंने

अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग-अलग स्तर पर भारत

'उनका जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतीक', मनमोहन सिंह को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है कि किस तरह से वे सभी चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पुरे देश में शोक की लहर है। देश में सात दिन के राष्ट्रीय शोक का



एलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के आवास जाकर पूर्व पीएम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शोक संदेश जारी किया और पूर्व पीएम को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से निधन से हम सभी दुखी हैं। उनका जाना देश के लिए बड़ा झटका है। मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है कि किस तरह से वे सभी चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हमेशा एक ईमानदार नेता, एक महान अर्थशास्त्री

और एक ऐसा नेता के तौर पर याद रखे जाएंगे, जिन्होंने खुद को सुधारों के प्रति समर्पित कर दिया। एक अर्थशास्त्री के रूप में, खासकर चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। उन्होंने अलग-अलग पदों पर अपने सेवाएं दीं और देश की विकास यात्रा में अहम योगदान दिया। उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवाएं दीं। पूर्व पीएम पीवी नरिसम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे और देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी।पीएम मोदी ने कहा कि जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो समर्पण था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतीक था। उनकी सौम्यता, बौद्धिकता उनके जीवन की पहचान रही। मुझे याद है, जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था तो मैंने कहा था कि उनका बतौर सांसद समर्पण सीखने लायक है। प्रधानमंत्री ने कहा उच्च पदों पर रहने के बावजूद मनमोहन सिंह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वे सभी के लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुले मन से चर्चा होती थी। दिल्ली आने के बाद भी उनसे समय-समय पर चर्चा होती थी, वो चर्चाएं और मुलाकातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं अर्पित करता हूं।



आंखों से श्रद्धा-सुमन अर्पित लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल अंतिम संस्कारबता दें, पूर्व के आवास पहुंचकर उन्हें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल 28 ने भी पहुंचे पूर्व पीएम सिंह के दिसंबर को कांग्रेस मुख्यालय आवास पर इसके अलावा,

की। राजघाट के पास होगा गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ्पुष्पांजलि अर्पित की। जेपी नड्डा लाया जाएगा, जहां लोग उन्हें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व

सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा और केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी के अन्य नेता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के आवास पर मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के



जाएगा।राहुल गांधी ने पूर्व गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा

श्रद्धांजिल देंगे। उनका अंतिम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संस्कार राजघाट के पास किया को श्रद्धांजलि दी। सोनिया पीएम मनमोहन सिंह को पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के पुष्पांजिल अर्पित की- आवास पहुंचेकांग्रेस सांसद

निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्र के लिए उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

सीएम योगी सहित नेताओं ने पूर्व पीएम को दी श्रद्वांजलि, अखिलेश ने इस तरह किया याद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यूपी के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जाहिर करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है।पूर्व पीएम के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ प्रख्यात अर्थशास्त्री अत्यंत दुःखद एवं क्षिति है। वित्त मंत्री देश की शासन निर्वहन किया। उन्हें प्रार्थना है कि उनके शोकाकुल अथाह दु:ख सहन



ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं डॉ. मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति की अपूरणीय और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का विनम्र श्रद्धांजलि!प्रभु श्री राम से दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं परिजनों व समर्थकों को यह करने की शक्ति प्रदान करें।?

शांति!अखिलेश यादव बोले, उनका निधन एक अपूरणीय क्षति-सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतरराष्ट्रीय अपूरणीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि!भाजपा नेता अदिति सिंह बोलीं, आज पूरा देश उन्हें दे रहा श्रद्धांजलि-पूर्व कांग्रेसी व भाजपा की वर्तमान नेता अदिति सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए एक दु:खद समाचार है... उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने देश को बदलने का काम किया है... वे एक सादगी पसन्द व्यक्ति थे... आज राजनीति से हटकर सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।मायावती बोलीं - उन्होंने अर्थव्यवस्था के सुधार में खास योगदान दिया-बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति-दुखद है। भारत की अर्थव्यवस्था के सुधार में उनका खास योगदान रहा। वे नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले- देश सदैव उनका ऋणी रहेगा- कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सियासत में सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह सूचना बेहद पीड़ादायक है। आर्थिक सुधार, परमाणु समझौता और मनरेगा जैसी योजनाएं उनके दूरदर्शी और देश को समृद्धि के शिखर पर ले जाने वाली सोच का ही परिणाम थीं। यह देश उनके योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। भावभीनी श्रद्धांजलि।

संपादकीय Editorial

Pre-budget discussion

Prime Minister Modi has started the prebudget discussion, so his focus is on the economic growth rate of 7-8 percent. Despite global challenges, uncertainties and geopolitical tensions, the pace and growth of the economy should be such that the target of 'developed India' can be achieved in 2047. At present, the growth rate is somewhat backward, but India is at the first place in the world in this context. Very soon, India's economy can overtake Japan and come to the fourth place. The Prime Minister believes that the target of 2047 can be achieved only when the mindsets related to the economy change. Finance Minister Nirmala Sitharaman and the leadership of Niti Aayog as well as many economists were also involved in this discussion of the Prime

Minister. Apart from the growth rate, the focus of the discussion was that if a 'tariff war' breaks out between America and China, then what should be India's strategy? India should prepare such plans that we can take advantage of those situations and gather opportunities. At present, economic experts have suggested that we have to focus on issues like job creation, skill development increasing agricultural productivity attracting investment and increasing exports. Unemployment is a major problem in India, which creates different tensions Farmers are also agitated because even today they are financially poor and are also facing the crisis of crop trade. Agriculture contributes more than 17 percent to the country's GDP. One concern about the economic growth rate came to the fore that the growth in the July-September quarter was 5.4 percent, which is the lowest in seven quarters. Obviously, the 'alarm bells' must have rung among the policy makers! Experts also discussed the economic growth rate and the extent of some reforms. The economic decline that has emerged has alerted many agencies including the Reserve Bank of India. However, RBI's recent report says that private consumption and rural demand will increase after the half of the current financial year. The figures of the festive season economy will also be clear, as a result of which the growth rate will improve. However, experts suggest that reforms are necessary in the agriculture sector and taxation sector. Prices in the areas of tomato, onion and potato should be stable. Farmers should also get the benefit of these crops. Suggestions were also given to formulate strategies related to climate change and energy transition. Issues related to trade and export were also discussed Experts gave suggestions on free trade agreements, tariff strategy internationalization of rupee etc. Especially suggestions were given to deepen vocational training for employment and create dignity of labour. This worrying aspect also came to the fore that the share of insurance sector in GDP has shrunk to only 3.7 percent. It has been continuously decreasing for the last two years. In the disclosure made to the media after the discussion, employment opportunities and creating more and more jobs were prominent. Private prosperity. private demand and consumption and ultimately the market are linked to it. Only they can increase the growth rate of an economy. However, despite all the activities. India will remain some distance away from the 5 trillion dollar economy for the time being. If India reaches even 4.5 trillion dollars, it will be the fourth largest economy in the world.

River Linking Campaign, Ken-Betwa will benefit lakhs of people

When a project starts late, not only does its cost increase but there is unnecessary delay in providing relief to the people who will benefit from it. This leads to disappointment in them. It is not right that a multipurpose project gets shelved due to change of power. Unfortunately, this happens often in our country. The foundation stone of the Ken-Betwa river linking project by the Prime Minister is to give impetus to an ambitious project. This project will benefit lakhs of people of Bundelkhand region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. This project will help in overcoming the crisis of irrigation water along with drinking water. Apart from this, it will also produce electricity. It is satisfying that this project, which will bring happiness and prosperity in the lives of lakhs of people, finally moved forward, but it should be considered why there was so much delay in its launch? The idea of ??linking Ken and Betwa rivers was conceived long ago, but it remained under consideration for a long time and the then governments could not take any concrete decision on it. Pointing this out, the Prime Minister rightly said that the attitude of the Congress governments was the root cause of the delay in such projects. It cannot be ignored that the Vajpayee government had formulated the plan for the river linking campaign about 20 years ago. It is entirely appropriate that the project to link the Ken-Betwa rivers was given the green signal on his birth anniversary. It would have been better if this project had not been delayed. At least now it should be ensured that this project is completed within the stipulated time. When a project starts late, not only does its cost increase, but there is also unnecessary delay in providing relief to the people who will benefit from it. This leads to disappointment among them. It is not right that a multi-purpose project is shelved due to change of power. Unfortunately, this often happens in our country. With the change of governments, either the proposed schemes are neglected or there is direct opposition to them. Sometimes, environment friendly organizations stand against it. No doubt, environment should be taken care of while giving a concrete shape to any project, but it is also not right to insist that no tree should be cut and no one should face displacement. Development and anti-public welfare politics should not be done in the name of protecting the environment. This politics was not introduced only in the case of linking Ken-Betwa rivers. This happened in the case of taking forward many other projects as well. It would be good if a resolution is taken now that this should not happen in the case of any project in future. National and regional parties will have to establish a consensus on this so that political differences do not come in the way of development work.

Narrow-mindedness again on Hindi, why the opposition of South leaders

It is a fact that despite the opposition to Hindi, the number of Hindi learners in Tamil Nadu has more than doubled in the last 10 years. According to Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, while the number of Hindi learners in Tamil Nadu was 2.18 lakh in 2009, it increased to 5.90 lakh in 2019. It is clear that there is no need for encouragement for the development of Hindi. Recently, the voice of opposition to Hindi was raised again. It was raised in Parliament when a bill called the Indian Aircraft Bill was introduced. This move of the Central Government was described as an attempt to impose Hindi in non-Hindi speaking states. Earlier, the naming of the Acts related to the Indian Judicial Code was also opposed. The politics of DMK in Tamil Nadu has mainly been centered on opposition to Hindi. Following its example, AIADMK also makes opposition to Hindi a weapon of its politics. Recently, AIADMK passed a resolution saying that naming the laws in Hindi and Sanskrit by the Central Government is indirectly imposing Hindi. Like Tamil Nadu, voices of opposition to Hindi are sometimes heard in Karnataka too. Using words like imposing Hindi is like a phrase for those opposing Hindi, whereas the Hindi language originated not as a language of governance but as a language of public aspirations. Therefore, in the states where it is being opposed more, the governments can erase Hindi from government institutions and name-boxes, but cannot remove the use of Hindi from people's tongues in everyday life. It is a fact that despite the opposition to Hindi, the number of people learning Hindi in Tamil Nadu has more than doubled in the last 10 years. According to Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, while the number of people learning Hindi in Tamil Nadu was 2.18 lakh in 2009, it increased to 5.90 lakh in 2019. It is clear that there is no need for encouragement for the development of Hindi, because it is making its own place on its own. This also makes it clear that in the states opposing Hindi, it is a sign of narrow-mindedness of the political parties, and not the opposition of the people living there. The political parties of these states try to suppress their failure on the issue of employment in the name of opposition to Hindi. This is exactly the same tendency as some political parties blame EVMs for their defeat in elections. In fact, today, without any government encouragement, Hindi has become the language of public relations even in those states which once opposed it. This expansion of Hindi has happened not due to any government, but due to public concern. Today, it is expanding as a public language, as the language of workers. Those opposing Hindi knowingly or unknowingly advocate strengthening English, which is an imperialist language. If Hindi cannot express their public aspirations, then how can English do so, because language is not just a language, but it is also a living accumulation of social tradition through the proverbs and idioms of those who speak it. Some of the national characters of India like Ram etc. have been described in different languages. This unity shows that even though there are different languages ??in India, their basic essence is the same. That is why there is a mutual interrelationship in many languages. Therefore, opposing any Indian language is not just supporting English but also destroying our own tradition. This will never be good for the nation, because when languages ??are lost, not only the language is lost but the history of those who speak it is also lost. Language is a means of knowing the past of any country. Indian languages ?? are not the language of imperialism, but the language of the masses. That is why even without encouragement, these languages?? are still alive. Hindi speakers should also increase their interaction with other speakers, read their literature and speakers of other languages?? will also have to connect with Hindi literature not with prejudice but with literature lovers. In this era of identities, language is an important identity. Earlier, language was understood only as a language, but now it is also understood as an identity. Today, language is not only a medium of communication, but is also synonymous with the existence of the speaking group. The status of a group is also determined by its language. Here, no single language has been fully applicable to the whole of India, rather language has been a symbol of a culture of resistance. For example, if the government used Sanskrit, the people used Pali-Prakrit. When the government started using Pali-Prakrit, the people started speaking Apabhramsha. Then when the government started using Persian, the people started speaking Hindi. Thus, here a difference is always visible between the language of the ruler and the language of the people. Hindi language has never been an imperialist language. It is the language of the deprived and the oppressed. It is the language of the common people. It is the expression of people's aspirations. Hindi as a language has a bright future. Therefore, before opposing Hindi, the parties of Tamil Nadu, Karnataka should take the opinion of the common people of their state, so that they can realize their narrow-mindedness and the popularity of Hindi.It is a fact that despite the opposition to Hindi, the number of people learning Hindi in Tamil Nadu has more than doubled in the last 10 years. According to Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, while the number of people learning Hindi in Tamil Nadu was 2.18 lakh in 2009, it increased to 5.90 lakh in 2019. It is clear that there is no need for encouragement for the development of Hindi, because it is making its own place on its own. This also makes it clear that in the states opposing Hindi, it is a sign of narrow-mindedness of the political parties, and not the opposition of the people living there. The political parties of these states try to suppress their failure on the issue of employment in the name of opposition to Hindi. This is exactly the same tendency as some political parties blame EVMs for their defeat in elections. In fact, today, without any government encouragement, Hindi has become the language of public relations even in those states which once opposed it. This expansion of Hindi has happened not due to any government, but due to public concern. Today, it is expanding as a public language, as the language of workers. Those opposing Hindi knowingly or unknowingly advocate strengthening English, which is an imperialist language. If Hindi cannot express their public aspirations, then how can English do so, because language is not just a language, but it is also a living accumulation of social tradition through the proverbs and idioms of those who speak it. Some of the national characters of India like Ram etc. have been described in different languages. This unity shows that even though there are different languages??in India, their basic essence is the same. That is why there is a mutual interrelationship in many languages. Therefore, opposing any Indian language is not just supporting English but also destroying our own tradition. This will never be good for the nation, because when languages??are lost, not only the language is lost but the history of those who speak it is also lost. Language is a means of knowing the past of any country. Indian languages ??are not the language of imperialism, but the language of the masses. That is why even without encouragement, these languages ??are still alive. Hindi speakers should also increase their interaction with other speakers, read their literature and speakers of other languages ??will also have to connect with Hindi literature not with prejudice but with literature lovers. In this era of identities, language is an important identity. Earlier, language was understood only as a language, but now it is also understood as an identity. Today, language is not only a medium of communication, but is also synonymous with the existence of the speaking group.

प्रेम विवाह कर तीन साल में ही आज मुरादाबाद आएंगे भाजपा पत्नी का गला रेत कर मार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डाला, सड़क किनारे फेंका शव तैयारियों में जुटे पदाधिकारी

दोस्त की मदद से आरोपी ने सड़क किनारे फेंका शव, हत्या की रिपोर्ट, 24 घंटे बाद सोशल मीडिया के जरिए परिजनों ने की महिला की पहचान

मुरादाबाद- काशीपुर उत्तराखंड की रहने वाली एक युवती के साथ नागफनी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने तीन साल पहले प्रेम विवाह किया। उसके बाद दोस्त के साथ मिलकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोस्त की मदद से भोजपुर थाना क्षेत्र में काशीपुर रोड स्थित जहांगीरपुर गांव के पास शव फेंक कर मौके से फरार हो गए। 24 घंटे बाद सोशल मीडिया के जरिए परिजनों ने मृतका की पहचान पहचान अंजली उर्फ आकांक्षा के रूप में की। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति और उसके दोस्त के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। काशीपुर थाना क्षेत्र के गड्ढा कालोनी के रहने वाले भूरा कश्यप ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी अंजली उर्फ आकांक्षा ने तीन साल पहले नागफनी थाना क्षेत्र के गांव बंगला निवासी मोहित सैनी के साथ प्रेम विवाह किया था। पांच माह पहले ही वह पित के साथ काशीपर में ही किराए के मकान में रहने लगी। आरोप है कि गुरुवार को उनकी छोटी बेटी अनीता ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन का शव देख कर उसको पहचान लिया। जिसके बाद पता चला कि उसकी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। उसके बाद उसका शव भोजपुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया इस पर उसकी बेटी ने मोहित को फोन कर जानकारी ली तो उसने बताया कि वह एक दिन पहले से लापता है। जिसका नंबर भी बंद जा रहा है। इसके बाद उसकी बेटी जहां वह किराए के मकान में रहती थी। वहां जाकर जानकारी ली तो मकान मालिक उमाशंकर ने बताया कि उसकी बहन अपने पित व पित के दोस्त के साथ सुबह चार बजे बाइक से कहीं पर गई थी। उसके बाद वह वापस लौट कर नहीं आई। ऐसे में उसकी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति और उसके दोस्त ने की है। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति को नामजद करते हुए उसके अज्ञात दोस्त के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर दिबश दी लेकिन, आरोपी घर पर नहीं मिला। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगातार दिबश दे रही है। बुधवार को मिला था शव- आकांक्षा का शव बुधवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में काशीपुर रोड पर जहांगीरपुर गांव के पास मिला था। घटना की जानकारी होने पर एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश प्रताप सिंह और भोजपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवाया था। पुलिस ने शव की पहचान कराने की काफी प्रयास किया था। लेकिन, पहचान नहीं हो सकी थी। सोशल मीडिया के जरिए पहचान होने के बाद उसके पिता ने तहरीर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती की पहचान होने के बाद उसके पिता ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पित और उसके अज्ञात दोस्त के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दिबश दे रही हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -- कुंवर आकाश सिंह, एसपी देहात

पुल की रेलिंग पर काफी देर तक बैठी, फिर अचानक गंगा में कूद गई युवती; आया सामने लाइव वीडियो

मुरादाबाद- यूपी के हापुड़ के ब्रजघाट पुल पर काफी देर बैठने के बाद एक युवती गंगा में कूद गई। गंगा में कूदते हुए युवती का लाइव वीडियो सामने आया है। ब्रजघाट के गोताखोरों ने तैरकर युवती



को बचा लिया। अमरोहा के गजरौला में ब्रजघाट गंगा पुल से गंगा में कूदी युवती को गोताखोरों ने बचा लिया। सूचना पर गए पुलिसकर्मी युवती को अपने साथ ले गए। उसके परिजनों को बुलाया। जिनके साथ युवती को भेजा जा रहा है। घटना सुबह 8.30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों और हापुड़ जिले के ब्रजघाट गंगा तट पर मुस्तैद गोताखोरों ने बताया कि एक युवती ब्रजघाट गंगा पुल की हादसे से बचाने के लिए बनाई लोहे की जाली पर चढ़ी। फिर कुछ मिनट तक बैठने के बाद युवती ने गंगा में छलांग लगा दी। उसे कूदते देख गंगा तट पर मुस्तैद गोताखोर चंद्रभान, विशाल, रोशन, राजू, विनोद, कुंवरपाल, मुकेश, दीपचंद नाव लेकर दौड़ पड़े। गंगा जल में डूबने से बचने लिए संघर्ष कर रही युवती को गोताखोरों ने मशक्कत कर बचाया। उसे नाव में बैठाकर किनारे पर ले गए। पता लगने पर ब्रजघाट चौकी के पुलिसकर्मी पहुंच गए। युवती को अपने साथ ले गए। वह हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के गांव निवासी है। युवती को परिजनों के साथ भेज दिया गया। पारिवारिक कलह में गंगा में कूदी थी युवती–पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय युवती पारिवारिक कलह में गंगा में कूदी थी। 16 जनवरी 2025 को युवती की शादी है। लेकिन किसी बात से परेशान थी। परेशान युवती घर से निकली और खुदकुशी की कोशिश की, ब्रजघाट चौकी इंचार्ज इंद्रकांत यादव ने बताया कि पुल से कूदने वाली युवती को गोताखोरों ने बचा लिया है। फिलहाल युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।



टीएमयू से पहले बागड़पुर में एनएच 9 पर होगा पार्टी पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत मुरादाबाद- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को मुरादाबाद आएंगे। उनके आने पर पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। इसकी



तैयारियों में पदाधिकारी जुट गए। पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने इसको लेकर पार्टी के बुद्धि विहार स्थित कार्यालय पर बैठक की। उन्होंने बताया कि दिन में 11=30 बजे मयूरी फार्म हाउस ग्राम बागड़पुर टीएमयू से पहले एनएच 9 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। क्षेत्रीय महामंत्री ने बताया कि उनके स्वागत को लेकर सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। बैठक में जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली चौहान, पूर्व विधायक राजेश कुमार चुत्रू, जिला महामंत्री राजन विश्नोई, कमल प्रजापित, चंद्रपाल सैनी, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, महमूदपुर चेयरमैन प्रतिनिधि मंगल सिंह सैनी, मूंढापांडे ब्लॉक प्रमुख डॉ. नवदीप यादव, जिलामंत्री चिकत चौधरी, पंकज कुमार, अरुण पंडित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीएमयू के दीक्षांत समारोह में शनिवार को शामिल होंगे।

संभल की बावड़ी में लोहे की सरियों का गेट... पहली मंजिल पर मिले कुएं की इसलिए रोकी खोदाई; स्ट्रु का सर्वे जारी

मुरादाबाद- संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ लोग बावड़ी को देख कर वह अपने बचपन के समय में देखी बावड़ी के मॉडल को याद कर रहे हैं। यादों का ताजा करते हुए लोगों का कहना है कि बावड़ी का मुख्य गेट लोहे की सिरयों का था। संभल के चंदौसी में मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी में सातवें दिन बावड़ी की पहली मंजिल के गिलयारों से मिट्टी हटाने का काम जारी है। एएसआई की टीम भी बावड़ी स्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुटी है। इससे पहले, गुरुवार को भी पहली मंजिल के गिलयारों से मिट्टी हटाने का काम किया गया। 40 से 45 मजदूर गिलयारों से मिट्टी निकाल कर ट्रैक्टर-ट्राली में भरने में लगे रहे।



बाद पहली मंजिल के एक साइड के गलियारे का पूरा फर्श साफ कर दिया गया है। वहीं बावड़ी में उतर रही सीढ़ियों के सामने बावड़ी का कुआं बताया जा रहा है। वहां मिट्टी इकट्ठा कर वहां की खोदाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि पहली मंजिल की पूरी तरह से सफाई होने के बाद ही कुआं की

दिन भर की मेहनत के

साइड वाली की मिट्टी निकाली जाएगी। बृहस्पतिवार को भी सुबह साढ़े 10 बजे करीब नगर पालिका परिषद की सेनेटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंची। दो शिफ्ट में 40-45 मजदूरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। लंच टाइम तक एक टीम काम कर रही है तो लंच के बाद दूसरी टीम काम कर रही है। सुबह 10 बजे एएसआई की टीम के सर्वे के बाद करीब 11 बजे मजदूर फावड़ा और परात लेकर बावड़ी के प्रथम मंजिल पर पहुंचे। जहां गलियारों से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। सीढ़ियों तक मजदूर लाइन में खड़े होकर एक दूसरे से मिट्टी से भरी परात लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली तक पहुंचा रहे थे। शाम पांच बजे तक कार्य बंद कर दिया गया। तब तक बावड़ी में सीढ़ियों से उतरने के बाद दायीं ओर के गलियारे के फर्श को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ के गिलयारे की मिट्टी उस ओर के गेट पर लाकर काम रोक दिया गया। इतना ही नहीं बावड़ी की सीढ़ियों के सामने वाली साइड में कुआं बताया जा रहा है। जिससे वहां का गेट मिट्टी भर कर बंद कर दिया गया है। इसकी खोदाई ऊपरी मंजिल की सफाई करने के बाद ही होगी। चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी का सर्वे करती एएसआई की टीम-मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी की पहली मंजिल के गलियारों से मिट्टी हटाने का काम जारी है। उधर,तीसरे दिन भी एएसआई की टीम ने बावड़ी स्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल की। सुबह 10 बजे से टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बावड़ी की पहली मंजिल के गलियारों में घुस कर छानबीन कर फोटो और वीडियोग्राफी भी की। इसके अलावा बावड़ी की नापजोख की गई। नगर पालिका की सेनेटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने बताया कि एएसआई की सर्वे कर रही है। सदस्यों ने बावड़ी में फोटो व वीडियोग्राफी की। पहली मंजिल पर नापजोख भी की है।एएसआई टीम ने की बावड़ी की फोटो और वीडियोग्राफी - इससे पहले, दूसरे दिन भी एएसआई की टीम ने बावड़ी स्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल की। बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे से पहले एएसआई टीम के राजेश कुमार और मुकेश कुमार बावड़ी पर पहुंचे। यहां उन्होंने बावड़ी की पहली मंजिल के गलियारों में घुस कर छानबीन की और फोटो लिए। वीडियोग्राफी भी की। साथ ही बावड़ी की नापजोख करने भी की। इतना ही नहीं बाद में नमूने भी ले जाने की बात

्संक्षिप्त समाचार

कक्षा चार के छात्र का जंगल में लटका था शव, देखते ही परिजनों की निकली चीख, बोले- मारकर लटका दिया

मुरादाबाद- शेरगढ़ गांव में कक्षा चार के छात्र मुकेश का शव कीकर के जंगल में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

लिए भेजा है।
कक्षा चार के
(10) की
परिस्थितियों
उसका शव घर
मीटर दूर
जंगल में फंदे
मिला।
का आरोप



छात्र मुकेश संदिग्ध में मौत हो गई। से तीन सौ कीकर के पर लटकता परिजनों ने हत्या लगाकर सख्त

कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।छात्र मुकेश शेरगढ़ गांव में रहने वाले मजदूर नरेश का बेटा था। परिजनों के मुताबिक नरेश अपनी पत्नी मिथिलेश और बेटी के साथ हरियाणा में मजदूरी करता है। उनके चार बच्चे गांव में ही अपने नाना कुंवरसैन के पास रहते हैं।पांच भाई बहनों में तीसरे नंबर का मुकेश गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र था। बृहस्पतिवार को मुकेश विद्यालय नहीं गया था, इसके बाद दोपहर में घर से गायब हो गया। काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।रात में करीब नौ बजे परिजन उसे तलाश करते हुए घर से तीन सौ मीटर दूर कीकर के जंगल में पहुंचे तो यहां मुकेश का शव प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फंदे पर लटका हुआ मिला। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलते ही मृतक के पिता नरेश, माता मिथिलेश देवी भी गांव आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों ने मुकेश की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की मांग की है। अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया, अब तक 49 आरोपियों को भेजा गया जेल

मुरादाबाद-संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तक 49 उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं। 450 उपद्रवियों की पहचान हुई है। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए उपद्रव में शामिल

उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की एसआईटी लगी है। कोतवाली पुलिस ने बवाल से जुड़े मामले में छानबीन के लिए कई संदिग्ध हिरासत में लिए हैं। उनसे



पूछताछ की जा रही है।हालांकि हिरासत में संदिग्ध होने से पुलिस ने इनकार किया है। अभी तक हुई पुलिस की कार्रवाई में 49 उपद्रवी जेल जा चुके हैं। हालांकि विदेशी कारतूस किस पिस्टल से चले वह पिस्टल पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। विदेशी खोके बैलिस्टिक एक्सपर्ट को भेजे गए हैं।उनकी रिपोर्ट आने का भी पुलिस को इंतजार है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी इस बवाल की विवेचना में शामिल की जानी है। मालूम हो 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था। इसी दौरान मोहल्ला कोटपूर्वी में बवाल शुरू हो गया था।उपद्ववियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। साथ ही कई वाहनों को फूंक दिया था। इस उपद्रव में पांच लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने जामा मस्जिद के नजदीक हालात पर काबू पाए तो नखासा तिराहा और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी। इन तीन स्थानों पर हुए बवाल के फोटो और वीडियो की पुलिस ने छानबीन की तो 450 उपद्रवियों के चेहरे सामने आ गए। 100 उपद्रवियों के नाम और पते की जानकारी पुलिस को मिल गई। इसके अलावा 49 उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं। अब जो हिरासत में लिए गए हैं उनकी भूमिका मिलने पर जेल भेजा जाना है।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए०एच०प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद द्वारा जनसुनवाई में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं

क्यूँ न लिखूँ सच -सिकंदर राजा

मुरादाबाद- पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद द्वारा जनसुनवाई में आए फरियादियों की सुनी गई

समस्याएं, प्राप्त जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद द्वारा जनसुनवाई में आये फरियादियों की समस्याएं ⁄शिकायतों को सुना गया । जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आदेशित किया गया । महोदय द्वारा नगर क्षेत्र के थाना प्रभारियों को सचेत किया गया कि जनसुनवाई/महिला हेल्पडेस्क को और अधिक प्रभावशाली बनाये ताकि पीड़ित/ शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से अपने



थाने से पुलिस कार्यालय आने की आवश्यकता न हो । साथ ही सभी प्र0नि0/थानाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिये गये कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उनका समाधान थाना स्तर पर ही समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले: संभल जाएं संभल सांसद... वरना आजम खान जैसा होगा हाल

कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने संभल के सांसद जियाउल रहमान बर्क को लेकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संभल सांसद संभल जाएं, वरना सपा में उनका हाल भी आजम खान जैसा



होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद शुक्रवार को शाहजहांपुर पहुंचे। यहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शहर के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव असली नेता थे, जिनके अखाड़े में पहलवान पैदा होते

थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी भाड़े के पहलवान पैदा कर रही है। संभल के सपा सांसद जियाउल रहमान बर्क को लेकर एक सवाल के जवाब में डॉ. संजय निषाद ने कहा कि संभल के सांसद संभल जाएं, वरना उनका हाल भी आजम खान जैसा होगा। उन्होंने कहा कि सपा ने ही आजम खान की दशा खराब कर दी है। आजम खान की जगह कोई यादव होता तो शायद उसका यह हाल नहीं होता।धमिकयों से डरने वाली नहीं योगी सरकार% -कैबिनेट मंत्री ने खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू द्वारा महाकुंभ मेले में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने धमकी की तारीख देने के सवाल पर कहा कि अपराधी और आतंकियों को जहां जाना था, सीएम योगी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। यह योगी की सरकार है जो धमिकयों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वह खुद उन सभी तारीखों पर कुंभ मेला में पहुंचेंगे, जिन तारीखों पर खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू ने धमकी दी है। मेले में तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। वहां वह खुद पहुंचकर लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि देश ने एक अभिभावक खोया है।

4729 अप्रारंभ पीएम आवास का सुशासन दिवस पर किया गया भूमि पूजन, सभी के निर्माण कार्य का एक साथ शुभारंभ

क्यूँ न लिखुँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

सूरजपुर- कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में जिले में नई पहल करते हुए पीएम आवास निर्माण एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह को लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। इस पहल के तहत पीएम आवास

निर्माण में शटरिंग प्लेट की आवश्यकता को पूरी करने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दी गई है ताकि इन समूहों द्वारा सामान की आपूर्ति कर अपनी आय अर्जित किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर जानकी स्वयं सहायता समूह को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा 100 शटरिंग प्लेट (लोन के



माध्यम से) उपलब्ध कराया गया है। जिसका उद्देश्य स्व सहायता समूह की दीदियों को निर्माण के क्षेत्र में आगे लाना है। गौरतलब है कि विगत 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर जिला सूरजपुर के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में अप्रारंभ प्रधानमंत्री आवास का, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधि विधान से भूमिपूजन कराया गया, इसके साथ ही जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में एक साथ 4729 आवासों के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा इसे शीघ्र ही मूर्त रूप देने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य योजना भी बनायी गई है, आवास मित्रों के माध्यम से निर्माण कार्य की सतत मॉनीटरिंग की जायेगी। सूरजपुर जिले में 27842 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्माण संबंधित उत्पाद की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति करने की जिम्मेदारी जानकी स्वयं सहायता समूह सिहत अन्य समूहों को दी गई है जिसके अंतर्गत 312 सेट शटरिंग प्लेट के माध्यम से समूह की महिलाएं आवास निर्माण में सहयोग कर रही हैं गौरतलब है कि पीएम आवास के अलावा भी समूह की दीदियां शटरिंग प्लेट को अन्य जगहों जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है वहां भी किराए पर दे सकती है। प्रति शटरिंग प्लेट 05 रुपये की राशि प्रति दिन के लिये निर्धारित की गई है। जो निस्संदेह उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए अपना योगदान देगी। शटरिंग प्लेट के नवाचार से शासन की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वन करने के लिए न केवल बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं बल्कि इससे महिलाओं को एक ऐसे सफल व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है जो उन्हें लखपित दीदी की श्रेणी में शीघ्र स्थापित करेगा।

राजश्री कालेज के छात्रों ने समझी बैंकिंग फाइनेन्स की बारीकियां

रिठौरा राजश्री इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी के व्यावसायिक प्रबंधन विभाग द्वारा शुक्रवार को आयोजित गेस्ट लेक्कर अतिथि व्याख्यान का आयोजन कराया गया। व्याख्यान के विषय

इनोवेटिव ट्रेन्ड्स इन बैंकिंग एण्ड फाइनेनंस सैक्टरऔर बी एस ई इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम पर पुणे एवं लखनऊ से पधारे वक्ता रुद्रदत्त मिश्रा . शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा लिया गया। व्याख्यान का शुभारम्भ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन डायरेक्टर डॉ पंकज कुमार शर्मा, डीन एके डेमिक डॉ? साकेत अग्रवाल, रजिस्ट्रार दुष्यन्त



माहेश्वरी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉ मुकेश पाल गंगवार, अतिथि श्री रुद्रदत्त मिश्रा, शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी, प्रबंधन विभागाध्यक्ष डॉ रवीश अग्रवाल, डॉ? कौशल किशोर द्वारा किया गया। डॉ? पंकज कुमार शर्मा ने भी छात्रों को आगुन्तकों के द्वारा दिये गए समय का पूर्ण मनोयोग से व्यवहारिक ज्ञान को सीखना और उससे अपने जीवन को सुगम और सरल बनाने का आवाहन किया। प्रो? साकेत अग्रवाल ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के व्याख्यान कर जोर देने की बात कही एवं छात्रों के चहुंमुखी विकास को अपने संस्थान का मुख्य स्तम्भ बताया। आगुन्तक व्याख्यान-कर्ता रुद्रदत्त मिश्रा द्वारा उपस्थित कॉमर्स एवं बिज़नेस स्टडी के छात्रों को बैंकिंग एवं फाइनेन्स की मुख्य बारीकियों के साथ-साथ डिज़िटल फ्रॉड से भी सावधान रहने व बचने के गुर बताये। लखनऊ बी एस ई से पहुँचे शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी ने भी छात्रों को स्टॉक एक्सचेंज और मुम्बई स्थित बी एस ई , भारत के सबसे पुराने और भरोसे के लगातार सेवा देने का वर्णन किया एवं विद्यार्थियों को शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेन्ट का निजी जीवन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन किया। कार्यक्रम के अन्तिम क्षणों में पी? एण्ड जी? से रवि कुमार, विनीत प्रकाश एवं अनुज मिश्रा ने छात्रों को पर्सनालिटी डेवलपमेन्ट का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया। छात्रों के भारी उत्साह एवं सीखने की ललक देखकर अतिथि वक्ताओं ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। कार्यक्रम का मंच संचालन हरप्रीत एवं प्रबन्धन समिति में अंकुर भटनागर, डॉ? गौरव कपूर, डॉ? विवेक शर्मा, चीफ प्रॉक्टर संजीव कुमार, मानसी चतुर्वेदी, माधवेन्द्र चौहान, मोहम्मद अफज़्ल, मुदित, दीपाली सिंह, मानसी, स्मारिका का सहयोग सराहनीय

शिवम हत्याकांड: खून का बदला खून से लेने का ऐलान... आखिर कहां जाकर थमेगी वर्चस्व की ये जंग

शिवम को जहां गोली मारी गई, उससे सात किमी दूर उसका शव मिला। उसके परिजनों में गम और गुस्सा है। उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। कार सवारों ने फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर

शिवम को अगवा किया। आरोपियों के पीछे दौड़े। शिवम का शव पड़ा मिला। हमला हुआ था, इसमें वह को लेकर रंजिश शुरू हुई कर शिवम को घेर को तत्कालीन प्रधान ने कंधे में गोली मार दी थी।



शोर मचा तो पुलिसकर्मी और ग्रामीण करीब सात किमी दूर गंगनहर किनारे इससे पहले भी दो वर्ष पूर्व शिवम पर बच गया था। पूर्व प्रधान से वर्चस्व थी। इस बार आरोपियों ने सटीक रेकी लिया बिड़ौदा गांव में 20 जनवरी 2018 तेजपाल को बाइक सवार तीन युवकों उस समय वह अपने नलकूप पर जा रहे

थे। इस मामले में शिवम को आरोपी बनाया गया और वह जेल गया था। करीब छह माह वह जेल में रहा। बाद में कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। करीब दो साल से वह अक्खेपुर गांव में रह रहा था। बताया जा रहा कि दो माह पहले भी आरोपी स्विफ्ट गाड़ी से शिवम की हत्या के इरादे आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बार आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो गए। ग्रामीणों ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने नाकाबंदी कर काफी देर तक चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। रात करीब साढ़े 12 बजे तक परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर डटे थे। खून का बदला खून से लेंगे-शिवम की हत्या के बाद रिश्तेदार और परिजनों में काफी गुस्सा था। बड़ौदा गांव में उसकी जान को खतरे की आशंका के चलते परिजनों ने उसे अक्खेपुर गांव में बहन के यहां रहने भेजा गया था, लेकिन आरोपियों ने यहां आकर ही उसकी हत्या कर दी। इससे गुस्साए परिजनों ने एलान किया कि यदि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वह खुद खून का बदला खून से लेंगे। शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे परिजन-परिजन शिवम की शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। परिवार में मां कमलेश के अलावा बड़ा भाई दुष्यंत है। दुष्यंत और चार बहनों की शादी हो चुकी है। दस साल पहले पिता नानकचंद की मौत हो गई थी। काफी देर तक अक्खेपुर गांव में बहन रजनी को शिवम की हत्या की सूचना नहीं दी गई। वह भाई की सलामती के लिए प्रार्थना करती रही

जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर अवैध धान को लेकर की गई कार्यवाही

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

सूरजपुर- विगत दिवस कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देश पर राजस्व, खाद्य विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर अवैध धान को लेकर कार्यवाही कर हुए धान जब्त की गई साथ ही अवैध

धान मामले पर एक राइस मिल को रीसाइक्लिंग की आशंका पर सील किया गया। गौरतलब है। कि जिले में किसानों से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अवैध धान को लेकर भी जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार से अवैध धान की बिक्री धान खरीदी केंद्रों में ना की जा सके। इसी ऋम में राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने टुकुड़ांड समिति से 97 बोरी पुराना धान ले जाने की कोशिश पर धान ज़ब्त करने की



कार्यवाही करते हुए प्रबंधक के सपुर्द किया गया । साथ धान किसान के पास नहीं होने की सहमति देने के बाद किसान से रकबा समर्पण भी कराया गया। इसके अलावा एक अन्य मामले में बर्बरीक एग्रो प्रतापपुर के द्वारा 240 क्रिटल धान दो गाड़ी में संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया है। जिले के ग्राम केशवपुर तहसील रामानुजनगर में ट्रक में अवैध धान का परिवहन करते पाए जाने पर 300 बोरी लगभग 120 क्रिंटल धान जब्त कर थाना रामानुजनगर को सुपुर्द किया गया। इसके अलावा अवैध परिवहन होते पाए जाने पर रीसाइक्लिंग की आशंका पर जिले के मनोकामना राइस मिल सील किया गया तथा वाहन को धान सहित ज़ब्त दिया गया है।

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए सम्पर्क करे- 9027776991

संक्षिप्त समाचार

शहर में अतिऋमण के विरोध में अपर नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा

बरेली । राष्ट्र जागरण युवा संगठन बरेली शहर को स्मार्ट बनाने



सचिव मनोज शर्मा के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें बताया गया कि शहर में आए दिन हो

जिला

रहे अतिक्रमण से जनता परेशान है अधिकारियों की मिलीभगत से अतिऋमण चरम पर पहुंच गया है । जिधर देखो अतिऋमण के नाम पर महीना जा रहा है जिससे अतिक्रमण कार्य करने वालों के हौसले बुलंद नजर आते है वहीं जिला अध्यक्ष अंकुर चौहान ने बताया संगठन द्वारा अभियान चला कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा । जिससे शहर स्मार्ट बनाया जा सके ।। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष पंकज सिंह , दीपू कश्यप , विमल भारद्वाज , शिवम् गुप्ता , सौरभ शर्मा। आदि

बैंक में लॉकर काटकर चोरी करने के मामले में एक और गिरफ्तार, 25 हजार का था इनाम

लखनऊ के चिनहट की बैंक में लॉकर काटकर लाखों की



अंजाम देने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार लिया गया है। उस पर 25 हजार रुपये इनाम था।इंडियन ओवरसीज बैंक

काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 25 हजार के इनामी मिथुन कुमार बिंदु को अपट्रान चौकी के पास नेड़ा मोड़, देवा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।वह मूल रूप से बिहार मुंगेर के पुरुषोत्तमपुर चोरगांव का रहने वाला है। इसके पास से 126.14 ग्राम सोने के जेवर, 893 ग्राम चांदी के जेवर, एक लाख रुपए नकद, बैंक लॉकर के 13 कटे हुए टुकड़े, एक हथौड़ा, लोहे की छीनी, ग्लैन्डर मशीन और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।उसने पूछताछ में बताया कि वह अपने गिरोह के साथ मिलकर मटियारी स्थित इंडियन ओवसीज बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसा था और बैंक लाकर तोड़कर कीमती जेवरात और नकदी चोरी की थी।

ताला तोड़ कर मोबाइल शाप की दुकान में रखा लैपटॉप, नगदी लेकर चोर हुए फरार

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती के थाना इकौना अंतर्गत तहसील मुख्यालय गेट के पास पिंटू मोबाइल शॉप की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने चैनल में लगे ताले को तोड़कर दुकान में रखे लैपटॉप व कुछ नदी रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा तो देख कर दंग रह गया और 112 नंबर पुलिस के साथ-साथ इकौना पुलिस को भी सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस व थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। दुकान मालिक पिंटू ने बताया कि इससे पूर्व कुछ महीने पहले भी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया था परंतु अब तक उसका खुलासा नहीं हो सका।

आगजनी की घटना कारित करने वाले 05 वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक घानश्याम चौरसिया द्वारा जनपद म अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान साथ ही महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश के ऋम में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी इकौना सतीश कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 215/2024 धारा 326 (छ), 351 (3) BNS से सम्बन्धित 05 वांछित अभियुक्तगण को रामगढ़ी दा0 नेवरिया से गिरफ्तार किया गया। गजाधर निवासीगण ग्राम तरवाताल दाखिला इमलिया नारायन थाना सोनवा समस्त हाल पता निवासी गण ग्राम रामगढी दाखिला नेवरिया थाना सोनवा, रामगोपाल पुत्र ज्ञानी प्रसाद, फूलदास उर्फ फूलचन्द पुत्र राम आधार निवासी गण ग्राम रामगढ़ी दाखिला नेवरिया थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती।



'बाबा खेत में... चाचा कमरे और पापा हाथ-पैर बांध करते थे दरिंदगी', थाने में नाबालिग बोली- मैं गर्भवती हूं

एक किशोरी ने बाबा, पिता और चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दो माह की गर्भवती होने पर पीड़िता अपनी मौसी के साथ कोतवाली पहुंची है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर पिता और चाचा को हिरासत में लिया है।यूपी के औरैया से सनसनीखेज खबर सामने आई है। अपनी मौसी के साथ गुरुवार शाम बिधूना कोतवाली पहुंची 12 वर्षीय किशोरी ने अपने बाबा, पिता और चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। उसने दो माह की गर्भवती होने की भी बात बताई इस पर हरकत में आई पुलिस ने किशोरी से तहरीर लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं, उच्चाधिकारियों ने मामला संज्ञान में आने पर आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हुए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।बिधूना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के 40 वर्षीय पिता किसानी करते हैं। बाबा (60), चाचा (35) बकरियां चराते हैं। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसके पिता, बाबा और चाचा उसकी मां का शारीरिक शोषण करते थे, जिसके चलते कुछ समय पहले मां उसे साथ लेकर दिल्ली चली गई थी। कुछ समय पहले पिता और चाचा दिल्ली पहुंचकर उसे अपने साथ गांव ले आए। आरोप है कि करीब एक साल से अक्सर बाबा खेत में, चाचा कमरे में अकेला पाकर और पिता ने हाथ-पैर बांधकर जबरन उससे दरिंदगी शुरू कर दी। किसी से कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके चलते उसने किसी से कुछ नहीं बताया और सब कुछ सहती रही। हाल ही में उसे पता चला कि वह दो माह की गर्भवती है। यह बात तीनों आरोपियों को पता चली तो उन्होंने पीटना शुरू किया। हत्या की योजना बनाना शुरू कर दी। इस बीच किशोरी ने हिम्मत जुटाकर दिबियापुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद गुरुवार को मौसी नाबालिग को साथ लेकर कोतवाली पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 'बिधूना कोतवाली में एक नाबालिंग ने अपने बाबा, पिता व चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नाबालिग के दो माह के गर्भ से होने की बात भी सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।'- आलोक मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक

एएमयू-एम्स के बीच कैंसर के उपचार में हो सकता है करार, वीसी ने की मंशा जाहिर

एएमयू वीसी प्रो. नईमा खातून ने कैंसर के उपचार में सर्जिकल पैथोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका और बहु-विषयक उपचार दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एम्स नई दिल्ली के साथ पैथोलॉजी के क्षेत्र में करार की जरूरत बताई है। एम्स नई दिल्ली के प्रो. संदीप माथुर ने एंडोमेट्रियल काकैंसर के उपचार में सर्जिकल पैथोलॉजी में एएमयू और एम्स नई दिल्ली के बीच करार हो सकता है। इस पर एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है।26 दिसंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के बैनरतले अंतरराष्ट्रीय सतत चिकित्सा शिक्षा पर कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एएमयू कुलपति प्रो. नईमा खातून ने कैंसर के उपचार में सर्जिकल पैथोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका और बहु-विषयक उपचार दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया उन्होंने एम्स नई दिल्ली के साथ पैथोलॉजी के क्षेत्र में करार की जरूरत बताई है। एम्स नई दिल्ली के प्रो. संदीप माथुर ने एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के मामले में हुई प्रगति की जानकारी दी हिमाद मेडिकल कॉरपोरेशन के कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉ. हसन रिजवी ने सॉफ्ट टिशू ट्यूमर में विकास पर प्रस्तुति दी। एम्स की डॉ. दीपाली जैन ने पल्मोनरी पैथोलॉजी में प्रगति की जानकारी मुहैया कराई। प्रो. श्रुति भार्गव (एसएमएस जयपुर), डॉ. सुमैरा कयूम (केजीएमयू, लखनऊ), डॉ. जय कुमार चैरसिया (एम्स भोपाल), डॉ. सदफ हयात (एमपीएमएमसीसी, वाराणसी), जेएनएमसी एएमयू से डॉ. बुशरा सिद्दीकी , रुकिया अफरोज और सुहैलुर रहमान ने प्रस्तुति दी।ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता में ग्रुप ए में विजेता डॉ. जुनैद अख्तर उपविजेता डॉ. एजाज अहमद, ग्रुप बी में विजेता डॉ. मलिक बीनिश इकबाल, डॉ. राहुल गौतम, ग्रुप सी में विजेता डॉ. अरीबा खुर्शीद, उपविजेता डॉ. शुभम सिंह, डॉ. मारिया बटूल, ग्रुप डी में विजेता डॉ. कनक अत्र, उपविजेता डॉ. जिकया अल्मास रहे सीनियर रेजिडेंट्स श्रेणी में डॉ. हलीमा सादिया (एम्स रायबरेली) पहले और डॉ. सुम्बुल वारसी दूसरे स्थान पर रहीं। स्नातक में फातिमा नदीम पहले व ऐमन तनवीर दूसरे स्थान पर रहीं। प्राचार्या प्रो. वीणा माहेश्वरी ने अनुसंधान को जोड़ने में पैथोलॉजी की जानकारी दी।

क्या है कमरा नं. 105 की कहानी: पुलिस खंगाल रही डीवीआर, मृतक आतंकियों और दो मददगारों समेत पांच पर केस

पीलीभीत में सोमवार तड़के मुठभेड़ में मारे गए तीनों खालिस्तानी आतंकियों पर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें दो मददगार भी शामिल हैं, जो होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे। पूर्व में पुलिस टीम पर फायरिंग करने की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। पीलीभीत के पूरनपुर में फर्जी आधार कार्ड



से होटल में ठहरने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) के तीनों आतंकियों समेत पांच पर केस दर्ज किया है। इनमें आतंकियों की मदद करने वाले दो युवक भी शामिल हैं। आतंकी जहां ठहरे थे, पुलिस ने हर जी होटल के उस कमरे को सील

कर दिया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर थाने की बख्शीवाल पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के बाद खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के तीन आतंकी विरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जसनप्रीत उर्फ प्रताप सिंह, गुरविंदर सिंह पूरनपुर पहुंचे। जहां हर जी होटल में रुके थे। सोमवार तड़के पंजाब और पीलीभीत पुलिस से मुडभेड़ में तीनों मारे गए।दो युवकों को हिरासत में लिया -मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आतंकियों के स्थानीय कनेक्शन तलाशने शुरू किए तो आतंकियों को होटल तक पहुंचाने वाले दो युवक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखे। पहचान होने पर पुलिस ने गांव गजरौला जप्ती निवासी दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस ने तीनों मृतक आतंकियों सहित पांच आरोपियों पर फर्जी आधार से कमरा लेने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मुकदमे में आतंकियों के अलावा दो अज्ञात बताए हैं। मृतक आतंकियों पर यह दूसरा मुकदमा है। पूर्व में पुलिस टीम पर फायरिंग करने की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। हमले की रिपोर्ट पूरनपुर कोतवाल नरेश त्यागी ने लिखाई है। इसकी विवेचना बीसलपुर कोतवाली प्रभारी कर रहे हैं।होटल में 30 घंटे तक रुके थे आतंकियों ने रणनीति के तहत पूरनपुर पहुंचकर मददगारों के जिरये होटल में पनाह ली। एक रात रुकने के बाद 21 दिसंबर की रात 9.40 बजे वे होटल हरजी से निकल गए। करीब 30 घंटे बाद 23 दिसंबर की सुबह 5~30 बजे मुठभेड़ में तीनों को ढेर कर दिया गया। होटल से निकलने के बाद करीब 30 घंटे तक आतंकी कहां रहे? किस-किससे मिले? किस स्थानीय मददगार के पास गए और कौन सी साजिश रची?

इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं।इंग्लैंड से ही व्हाट्सएप पर आए फर्जी आधार-बताया जा रहा कि आतंकियों को होटल में ठहराने के लिए भेजे गए फर्जी आधार भी इंग्लैंड से ही भेजे गए थे। इन आधार के सहारे ही तीनों को होटल में रोका गया। तीनों आतंकी हर जी होटल के कमरा नंबर 105 में ठहरे थे। पुलिस ने इस कमरे को सील कर दिया है। कई अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है।कोतवाली में डटे रहे एसपी, खंगाले जा रहे दस्तावेज-एसपी अविनाश पांडेय बृहस्पतिवार को भी पूरनपुर कोतवाली में डटे रहे। होटल हरजी से कब्जे में लिए गए डीवीआर को पुलिस खंगाल रही है। पुलिस ने पूछताछ के बाद बुधवार देर शाम होटल के मैनेजर को छोड़ दिया था। हालांकि होटल के रूम 105 को सील कर दिया गया। सीओ विशाल चौधरी ने बताया कि आतंकवादियों के फर्जी आधार कार्ड के मामले में नगर चौकी इंचार्ज अमित कुमार की ओर से मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकवादियों सहित पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हिरासत में लिए मददगारों से पूछताछ की जा रही है।जिले में कितने मददगार, जोड़ी जा रहीं कड़ियां-बख्शीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंककर पूरनपुर पहुंचने से पहले ही आतंकियों के लिए जिले सभी व्यवस्थाएं होने की बात सामने आने पर माना जा रहा है कि जिले में उनके स्थानीय मददगारों का मजबूत नेटवर्क था। होटल में किराया कम कराने के लिए फोन तक किया गया। होटल से निकलकर आतंकी 30 घंटे तक पूरनपुर क्षेत्र में ही रहे या फिर लखीमपुर किसी मददगार के पास गए? पुलिस व एनआईए इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। कड़ी से कड़ी जोड़कर स्थानीय संपर्क तलाशे जा रहे

आप अपना किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित कराये जैसे नीलामी सूचना, बेदखली सूचना,ऋय विऋय सूचना आदि, वो भी कम कीमत में संपर्क करे - 907776991

संक्षिप्त समाचार

बारिश और ठंड के कारण

बाजार बड़ा सुनसान

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली बारिश और शीतलहर के चलते बाजार रहे सुनसान



आज सुबह करीब 4=00 बजे से लगातार बारिश होने से ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू किया जिसके चलते शहर के लोग ठंड और बारिश

लगातार चलते अपने घर से न निकलने के कारण आज बाजार

डा मनमोहन जी निधन पर कांग्रेसियो न शोक वक्त किया

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली डा0मनमोहन सिंह जी का जाना वास्तव में देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी ईमानदारी और निष्ठा का कोई सानी नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गाँव में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 में आर्थिक सलाहकार के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया था डा0मनमोहन सिंह जी ने 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। इस दौरान उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया था। उन्होंने 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक रूप से काफी प्रगति की थी

युवक एक और दो लड़िकयां पीछे-पीछे, दोनों ही कर रही अपना-अपना पति होने का दावा, जमकर हुई बहस; पुलिस भी उलझी

यूपी के इस जिले से अजीब मामला सामने आया है। दो युवतियों ने एक युवक पर पति होने का दावा किया है। दोनों का कहना है कि मैं इसकी पत्नी हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। परिवार परामर्श केंद्र में बृहस्पतिवार को एक अजीब मामला पहुंचा। दो युवतियों ने एक युवक पर पति होने का दावा किया।खुद को पत्नी बताने पर विवाद होने

काउंसलर और पुलिस दोनों हैरान रह गए। विवाद बढ़ने पर युवक ने दोनों शादियां कबूल कीं। काउंसलर ने परिवार के साथ आने के लिए अगली तारीख दे दी हैमामला आगरा देहात इलाके का है। यहां रहने वाला युवक निजी कंपनी में नौकरी करता है। उसने चार साल पहले प्रेम विवाह किया था। परिवार से अलग किराये के मकान में रहने लगा। परिजन को शादी की जानकारी नहीं दी। कभी-कभी गांव जाता था। दो साल बाद परिजन ने उसकी शादी करा दी। युवक दूसरी पत्नी के साथ भी रहने लगा। यहां पहली पत्नी को काम से गांव जाने की कह जाता था। मगर, रात में पत्नी से बात कर लेता था। एक दिन गांव में रह रही पत्नी को शक हो गया। पूछताछ पर मामला खुला। बात मारपीट तक पहुंच गई। पत्नी दो महीने पहले मायके आई और पुलिस से शिकायत की। मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा। काउंसलर डॉ. सतीश खिरवार ने दोनों पक्षों को बुलाया। पहली पत्नी भी परिवार सहित परामर्श केंद्र पहुंच गई। दोनों में खूब बहस हुई। बात बढ़ने पर युवक ने दोनों से शादी की बात कबूल की। काउंसलर ने इन्हें अगली तारीख दी है।

मां बीहर गंगा महाआरती रीवा में

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रदीप कुमार तिवारी

रहा है। यहां से वह किसी तरह ग्रीस

रीवा - श्रीराम दरबार अखिल आर्यावर्त रीवा के आयोजकत्त्व में दिनांक 28 दिसंबर 24 की मां बीहर गंगा आरती देव भूमि

पचमठा घाट में मुख्य यजमान श्री रमेश तिवारी जी (श्रीराम दरबार अखिल आर्यावर्त रीवा के प्रबंधकारणी सदस्य एवं तिवारी बस ट्रैवल्स,रीवा) पुष्पराज नगर, रीवा के द्वारा किया जायेगा कार्यक्रम विवरण- श्री सुंदरकांड पाठ समय ऱ्सायं ३ऱ३० बजे से अत: आप सभी सपरिवार अपने इष्ट मित्रों सहित सायं 6 बजे पधार कर आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। श्रीराम दरबार अखिल आर्यावर्त की पूरी टीम की ओर से श्री रमेश तिवारी जी के पुत्र चिरंजीव आयूष तिवारी के दिवस दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं

मददगारों का बड़ा खुलासा, इंग्लैंड से सिद्धू ने किया था फोन; सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

आतंकियों के मददगारों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इंग्लैंड से सिद्ध ने आतंकियों के मददगार जसपाल सनी को फोन किया था। हरियाण के जींद निवासी सिद्ध एक से डेढ़ साल पहले पूरनपुर में रहा था। यहां से ग्रीस और फिर इंग्लैंड चला गयापीलीभीत में मठभेड में मारे गए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के तीनों आतंकियों को प्रनप्र में ठहराने के लिए स्थानीय मददगार को इंग्लैंड से फोन आया था मददगार गांव से ही एक अन्य लड़के को लेकर पूरनपुर पहुंचा और आतंकियों को नगर के एक ढाबे पर खाना खिलाया। खालिस्तानी आतंकियों के हर जी होटल में ठहरने और सीसीटीवी फुटेज हाथ लगने पर पुलिस ने फुटेज में दिखे उनके मददगार दो युवकों को हिरासत में लिया है। इन पर केस भी दर्ज किया गया है। पकड़े गए गांव गजरौला जप्ती निवासी जसपाल सनी ने पुलिस की पूछताछ में आतंकियों से संबंधित कई अहम बातें बताई हैं इंग्लैंड से आया था जसपाल सनी को फोन-बताया जा रहा है कि आतंकियों के पूरनपुर पहुंचने से पहले शुऋवार शाम जसपाल सनी को इंग्लैंड से फोन आया

था। यह कॉल किसी सिद्धू नाम के उसके कि उसके तीन साथी पूरनपुर पहुंच रहे हैं। है। फोन आने के बाद उसने गांव के ही आ गया। जहां तीनों आतंकी उसका व्हाट्सएप पर आए फर्जी आधार-बताया में ठहराने के लिए भेजे गए फर्जी आधार आधार के सहारे ही तीनों को होटल में होटल के कमरा नंबर 105 में ठहरे थे। दिया है। कई अन्य पहलुओं पर भी जांच बाद में गजरौला जप्ती में रुका था सिद्धू-इंग्लैंड से फोन करने वाला हरियाणा के युवक करीब डेढ़ वर्ष पूर्व पूरनपुर आया से उसने कई दोस्त बना लिए। यह भी कहा गजरौला जप्ती गांव में भी किसी के घर चला गया। बाद में इंग्लैंड चला गया। उसने मदद करने की बात कही थी। बताया जा बाद हरियाणा पुलिस उसकी तलाश करते के मददगारों की तलाश में पीलीभीत से उधर, बरेली मे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए



हुए पूरनपुर पहुंची थी।आतंकियों खीरी तक एनआईए के छापे-खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) के आतंकियों के मददगारों की तलाश में एनआईए व पीलीभीत पुलिस ने पीलीभीत से लखीमपुर खीरी तक कई जगह छापे मारे हैं। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से होटल हरजी में ठहरने के मामले में तीनों आतंकियों सहित दो मददगारों पर केस दर्ज किया है। साथ ही होटल हरजी को सील कर दिया है।मृतक आतंकियों पर दर्ज हुआ दूसरा केस- सोमवार तड़के मुठभेड़ में मारे गए तीनों खालिस्तानी आतंकियों पर दर्ज हुआ यह दूसरा मुकदमा है। पूर्व में पुलिस टीम पर फायरिंग करने की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। हमले की रिपोर्ट पूरनपुर कोतवाल नरेश त्यागी ने लिखाई है। इसकी विवेचना बीसलपुर कोतवाली प्रभारी कर रहे हैं।कोतवाली में डटे रहे एसपी, खंगाले जा रहे दस्तावेज- एसपी अविनाश पांडेय बृहस्पतिवार को भी पूरनपुर कोतवाली में डटे रहे। होटल हरजी से कब्जे में लिए गए डीवीआर को पुलिस खंगाल रही है। पुलिस ने पूछताछ के बाद बुधवार देर शाम होटल के मैनेजर को छोड़ दिया था। हालांकि होटल के

रूम 105 को सील कर दिया गया। सीओ विशाल चौधरी ने बताया कि आतंकवादियों के फर्जी आधार कार्ड के मामले में नगर चौकी इंचार्ज अमित कुमार की ओर से मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकवादियों सिहत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हिरासत में लिए मददगारों से पूछताछ की जा रही है।तीनों अपराधियों को होटल पहुंचाने वाले युवकों पर केस दर्ज किया गया है। इनसे

पूछताछ की जा रही है। आरोपी जसपाल उर्फ सनी ने इंग्लैंड के नंबर से कॉल आने की बात कही है। जांच की जा रही है।- अविनाश पांडेय, एसपी



में लापरवाही को लेकर एक बैठक को थाना प्रेमनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

शामली स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अपने कार्यों में लापरवाही को लेकर 02 आशा एवं 02 ष्ट्रश ओर ®w ANM •¤ô dhs मे रख कर सेवा समाप्त करने के डीएम ने दिए निर्देशविकास भवन



शामली के सभागार में आज जिलाधिकारी श्री अरविन्द कुमार चौहान की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की एजेंडा बिंदु के अनुसार समीक्षा करते हुए जिन विभागीय कार्यक्रमों में प्रगति खराब पाई गई उसमें सुधार करने के कड़े निर्देश संबंधित को दिये।बैठक में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने झिंझाना एफ.आर.यू पर कोई भी कार्य सही से न होने पर सर्जन डॉक्टर नितिन को प्राइवेट प्रैक्टिस

कर रहे हैं तत्काल रोका जाए निर्देशित किया। जननी सुरक्षा योजना में जहां भुगतान कम है वहां पर शत प्रतिशत भुगतान के निर्देश दिए। बैठक में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने एन.आर.सी. के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश दिए। बैठक में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सेम बच्चों को आईसीडीएस डिपार्टमेंट के माध्यम से रेफर करने हेतु निर्देशित किया।बैठक में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संस्थागत प्रसव कराना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना, जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, आदि विभागीय कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने हाइपर टेंशन, डायबटीज ,कैंसर आदि की स्क्रीनिंग की उपलब्धि बढ़ाने के लिए निर्देश दिया तथा कार्यों में लापरवाही को लेकर 02 आशा एवं 02 ष्ट्रश एंड 02 हरूको स्रद्धह्य मे रख कर सेवा समाप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। ष्टाह्र के सेंटर पर ष्ट्रप्टञ्जङ्क कैमरा पंचायत विभाग से लगवाए जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी,मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अनिल कुमार, सीएमएस डॉ किशोर आहूजा,एसीएमओ अश्वनी शर्मा, अतुल बंसल, डॉ करन चौधरी डीआईओ, डी पी ओ आईसीडीएस, समस्त चिकित्सा अधीक्षक एवं डीपीएम आशुतोष, नितिन,लविस अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित

सूरजपुर पुलिस ने जुआ खेल रहे 6 जुआड़ियों को किया गिरफ्तार, 92 हजार 9 सौ 70 रूपये, मोबाईल, बाईक किया जप्त

सूरजपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले की पुलिस अवैध कार्यों के विरूद्ध बड़ी तत्परतापूर्वक लगातार कार्यवाही करने में लगी हुई है। इसी बीच दिनांक 26.12.2024 के रात्रि में थाना सूरजपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम धनेशपुर में जुआड़ी हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। सूचना से एसएसपी सूरजपुर को अवगत कराए जाने पर उन्होंने पूर्ण सावधानी के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। थाना सूरजपुर

की पुलिस टीम के द्वारा ग्राम धनेशपुर में घेराबंदी कर 6 जुआड़ी (1) गनपत पिता गोविन्द्र प्रसाद उम्र 30 वर्ष ग्राम शिवपुर, थाना रामानुजनगर (2) संकलित साहू पिता स्व. जयलाल साहू उम्र 34 वर्ष ग्राम उमापुर, थाना रामानुजनगर (3) बाबुनाथ कुशवाहा पिता स्व. हीराधन उम्र 45 वर्ष ग्राम भुनेश्वरपुर, थाना रामानुजनगर (4) श्यामले राजवाड़े पिता कोमल उम्र 33 वर्ष ग्राम मांजा, थाना रामानुजनगर (5) ज्ञानेन्द्र साह पिता तिलकधारी साह उम्र 35 वर्ष ग्राम खाड़ा, थाना पटना, जिला कोरिया (6) विवेक मिश्रा पिता बालिमकी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम महलपारा, थाना बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया को जुआ खेलते रंगे हाथों धर दबोचा, जुआड़ियों के पास व जुआ फड़ से 92970 रूपये जप्त किया गया। मौके से जुआड़ियों के 5 नग मोबाईल, 3 नग मोटर सायकल भी जप्त किया गया है। मामले में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व सीएसपी एस.एस.पैंकरा के मार्गदर्शन में थाना सुरजपुर की पुलिस टीम के द्वारा की गई।

शामली स्वास्थ विभाग की कार्यों पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति

सूरजपुर। ग्राम पिऊरी, थाना रामानुजनगर निवासी रमेश सिंह पिता बनारसी सिंह ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.12.24 के रात्रि करीब 8-9 बजे उदयराज सिंह के द्वारा अपनी पत्नी

लीलावती को खाना नहीं बनाने की बात को लेकर लोहे के राड से मारपीट किया तब उसका लड़का व भतीजा के द्वारा लीलावती को हास्पिटल ले जाने को बोले तो उनको धमका कर ले जाने से मना कर दिया, सुबह लीलावती की मृत्यु हो गई। प्रार्थी की सूचना पर मर्ग कायमी उपरान्त अपराध क्रमांक 138/24 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर



श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। थाना प्रेमनगर की पुलिस ने विवेचना कर दिबश देकर आरोपी उदयराज सिंह पिता भूखल सिंह उम्र 40 वर्ष ग्राम नावापाराकला को पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ पर पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रॉड जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रेमनगर नीलिमा तिर्की, एसआई मनोज सिंह, महिला प्रधान आरक्षक फुलमित राजवाड़े, आरक्षक बेचूराम सोलंकी, खेलन सिंह, संतोष ठाकुर, बाबुनाथ पोर्ते, हरिशचंद्र दास व बृजेश कासी सिऋय रहे।

ट्रांसफामेर चोरी करने वाले आरोपी को थाना प्रेमनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूरजपुर- प्रेमनगर निवासी दिलीप कोसले ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.11.2024 को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ग्राम भगवानपुर जामपारा में लगे ट्रांसफार्मर को पोल से

उतार कर उसके अंदर का कापर वायर को निकालकर ले गया जिससे बिजली विभाग को 80 हजार रूपये का क्षति हुआ है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 124/24 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं दूसरे मामले में प्रेमनगर निवासी सतेन्द्र कुमार ने दिनांक 27.12.24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि



अज्ञात चोर के द्वारा दिनांक 25.12.2024 को ग्राम खजुरी में लगे ट्रांसफार्मर को पोल से निकालकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। रिपोर्ट पर अपराध ऋमांक 139/24 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने दोनों मामलों की गंभीरतापूर्वक विवेचना करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। थाना प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मामलों की विवेचना के दौरान संदेही छोटन मरावी निवासी गेजी चौकी बचरा पोड़ी, थाना बैक्एठपुर को पकड़ा। पूछताछ पर उसने बताया कि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम भगवानपुर लगे ट्रांसफार्मर को पोल से नीचे उतारकर कॉपर वायर निकालना एवं ग्राम खजुरी में लगे ट्रांसफार्मर को चोरी करने के लिए पोल से नीचे उतारकर छिपाना बताया। आरोपी के निशानदेही पर चोरी किए ट्रांसफार्मर को जप्त कर आरोपी छोटन मरावी पिता मनी राम उम्र 35 वर्ष ग्राम गेजी, चौकी बचरा पोड़ी थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को गिरफ्तार किया है वहीं अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रेमनगर नीलिमा तिर्की, एसआई मनोज सिंह, एएसआई रंजीत सोनवानी, संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक महेन्द्र पटेल, महिला प्रधान आरक्षक फूलमती राजवाड़े, आरक्षक विजय चौबे, खेलन सिंह, अमर सिंह, राजू कुमार, संतोष ठाकुर महिला आरक्षक गीता सिंह सिऋय रहे।

हाथरस हत्याकांड: हॉल में कहां सोया था कृताथ...विवेचना में नहीं था जिक्र, सामने आए नए तथ्य; पलट गई पूरी कहानी

हाथरस के कृतार्थ हत्याकांड में विवेचना में इसका उल्लेख नहीं था कि कृतार्थ हॉल में कहां सोया हुआ था। नए विवेचक की पड़ताल में सामने आए नए तथ्य तो विवेचना दोबारा शुरू की। अभिभावकों के अलावा आरोपियों के जेल में बयान दर्ज किए हाथरस के कृतार्थ हत्याकांड में पांच आरोपियों को जेल भेजने के बाद हुई पुलिस की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि नक्शा नजरी में केवल वही

स्थान दर्शाया गया है, जहां कृतार्थ का शव मिला था, कृतार्थ सर्वप्रथम कितने बच्चों के साथ कहां सोया विवेचक ने नए सिरे से विवेचना की तो पूरी कहानी का जिम्मा संभालने के बाद चार्जशीट दाखिल करने किया कक्षा आठ के छात्र को कृतार्थ की हत्या में ने कई नए तथ्य विवेचना में शामिल करते हुए कक्षा आरोपी बनाया। चार्जशीट में यह स्पष्ट किया गया है कपड़ों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व अभिभावकों से आरोपी छात्र के ताऊ निवासी जिला एटा से वार्ता की डेढ़ वर्ष पूर्व इस विद्यालय में दाखिला कराया गया है।%उसने रात में कभी मुझे जगाया नहीं%-हॉस्टल के से स्कूल बंद चल रहा है। स्कूल के मैनेजर और शिक्षक कि स्कूल में जो बच्चा मरा है, उसकी हत्या उसी के सामने आने के बाद विवेचक ने जिन छात्रों के पूर्व में सत्यापन शुरू किया। एक अन्य छात्र ने विवेचक को



से पूर्व केस डायरी का अवलोकन आरोपी बनाया इसके बाद विवेचक आठ के छात्र को कृतार्थ की हत्या में कि विवेचक ने बिना वर्दी के सादा वार्ता की। विवेचक ने इस मामले में तो उन्होंने बताया कि छात्र का करीब था। तब से वह हॉस्टल में रहकर पढ़ता एक बच्चे की मौत हो जाने की वजह जेल में हैं, लेकिन अब पता चला है किसी साथी ने की है। इस बयान के बयान लिए गए थे, उनके बयानों का बताया कि उस रात से पहले कक्षा

आठ के हत्यारोपी छात्र ने उसे कभी नहीं जगाया और न ही उससे कभी बातें करता था।तंत्र मंत्र की बात को नकार दिया-इससे पहले उस छात्र को तीन अन्य छात्रों ने बताया था कि आरोपी यह कहता था कि स्कूल में कोई बच्चा मर जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी और हम लोग घर चले जाएंगे। इधर, इस बच्चे ने अपने बयान में तंत्र मंत्र की बात को नकार दिया। इसी तरह अन्य छात्रों के बयानों का पुनः सत्यापन किया गया। इन बयानों ने इस मामले को नया मोड़ देना शुरू कर दिया। विवेचक ने छात्रों व अन्य गवाहों के बयानों का सत्यापन करने के बाद न्यायालय से अनुमित लेकर जिला कारागार अलीगढ़ में पहुंचकर सभी आरोपियों के पुन: बयान दर्ज किए गए।बाल अपचारी के पिता बोले-प्रबंधक के साथ उसकी जाति के मंत्री हैं-कृतार्थ हत्याकांड में पुलिस द्वारा हत्यारोपी बनाए गए बाल अपचारी के पिता ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधक दिनेश बघेल के साथ उसकी जाति के एक मंत्री हैं। अगर हमारे साथ भी कोई नेता होता तो हमारे बच्चे को पुलिस नहीं ले जाती।उन्होंने कहा कि दलितों के साथ हमेशा से अन्याय होता चला आ रहा है। यह इतिहास में सुना था, अब हमने अपने साथ होते देख भी लिया है। कृतार्थ हत्याकांड में बाल अपचारी के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मेरे बच्चे को चार दिन तक गोपनीय तरीके से हिरासत में रखा। इस प्रकरण में पढ़े-लिखे भी अचंभि-कबूलनामा का वीडियो बनवाया, हमें डराया गया। हमसे यह भी कहा गया कि बच्चे से कुछ पूछना नहीं हैं, लेकिन हमने अपने बच्चे से इस घटना के बारे में पूछा था। मेरे बेटे ने कृतार्थ की हत्या करने से साफ इंकार कर दिया था। 16 दिसंबर को अचानक पुलिस आई और बच्चे को ले गई। पुलिस ने बच्चे को स्कूल में ले जाकर एक गंदा कपड़ा पकड़वा दिया। इस प्रकरण में पढ़े-लिखे भी अचंभित हैं। उस बच्चे ने पूरी जानकारी दी थी। बच्चे पर कोई दबाव नहीं डाला गया। यह आरोप बेबुनियाद हैं। सभी के लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। - हिमांशु माथुर, सीओ सादाबाद।

संक्षिप्त समाचार

ओम श्री एडवांस एकेडमी हाई स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रदीप द्विवेदी पीथमपुर में स्थित ओम श्री एडवांस एकेडमी हाई स्कूल पीथमपुर



प्रधानमंत्री डाँक टर मनमोहन सिंह के निधन होने र खक र श्रद्धां जलि दी। विद्यालय की शिवानी द्विवेदी में

पूर्व

बताया कि यह 92 साल के थे। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर दो कार्यकाल पूरी किए थे।वे देश के पहले सीख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं स्कूल की शिक्षिका पूजा पाटीदार ,कंचन पवार, सुशीला पवार, रिंकी श्रीवास्तव, सोनम जैन, कृति राजपूत, भूमिका चोपड़ा, प्रतीक्षा राजपूत, आकृति पटेल, शालिनी सिंह, रुचिका कवड़कर, गीता पाटिल, मानसी विश्वकर्मा, आकृति पटेल आदि ने मदर रखकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी

पीथमपुर रक्षा मंच सर्व समाज के साथ यूनियन कार्बाइड के कचरे के विरोध में रैली कल रविवार को

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रदीप द्विवेदी पीथमपुर सेक्टर 1 में स्थित राम रामेश्वर मंदिर छत्रछाया पर सर्व समाज द्वारा यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में



जनों के द्वारा आम सभा का आ यो ज न किया गया। जिस मे पी थ म पुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट ंप नी

हटाने की मांग को लेकर सभा आयोजित की गई। समाज जनो का कहना है कि राम की कंपनी के विषैले कचरे से यहां की जनता पहले से त्रस्त है। पीथमपुर में पीने योग्य पानी भूगर्भ में नहीं बचा है। और एक बड़ी आपदा यूनियन कार्बाइड के कचरे को भी यह कंपनी लाने वाली है। जिस कचरे को यहां निष्पादित किया जाएगा ।यहां की जनता किसी भी हाल में यह कचरा यहां नहीं जलते देगी। जिसका विरोध 29 दिसंबर को हाथों में काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह कोई राजनीतिक संगठनों का मुद्दा नहीं है यह आम जनमानस का मुद्दा है। इस विषय को लेकर बैठक आयोजित की गई जिसमें व्यवसायिक, प्रबुद्ध जन, डॉक्टर वकील, इंजीनियर , गायत्री परिवार, राजनीतिक सामाजिक पर्यावरण संगठन, समाज के प्रमुख, एवं मातृशक्ति भारी तादाद में उपस्थित होकर 29 दिसंबर रविवार को सुबह10=30 बजे छत्रछाया राम मंदिर से जुलूस के रूप में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

अज्ञात युवको द्वारा हत्या.करने से मखमूलपुर गांव मै दौडी दुख की लहर

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता शामली- मखमूलपुर यमुनानगर में हत्या से मखमूलपुर गांव में गम का माहौल। कांधला (शामली)। यमुनानगर के रादौर थाना क्षेत्र



के गांव खेड़ी लक्खासिंह में बाइक सवारों की गोली से मारा गया शराब कारोबारी 38 वर्षीय पंकज राणा शामली के मखमूलपुर गांव का रहने वाला है।पंकज की हत्या की सूचना से गांव में शोक व्याप्त हो गया। हालांकि, दस साल पूर्व पंकज परिवार के साथ बागपत के बड़ौत में गुराना रोड पर जाकर रहने लगा था। पंकज के चचेरे भाई संजय ने बताया कि पंकज और उसके पिता ब्रह्मपाल करीब 10 साल पूर्व गांव से बड़ौत के गुराना रोड पर जाकर रहने लगे थे। ब्रह्मपाल कृषि विभाग में तैनात थे मगर उनकी दो साल पूर्व मौत हो गई थी। पंकज यमुनानगर में ही शराब का कारोबार करता था। मृतक का एक बड़ा भाई और एक बहन है जो विवाहित है। शव का शुऋवार को पोस्टमार्टम होगा। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए बड़ौत ले जाया जाएगा। जहां पर परिजनों के साथ गांव मखमूलपुर के ग्रामीण भी अंत्येष्टि में शामिल होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से वह गांव में नहीं आया था। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा एक डेढ़ साल का बेटा भी है। अब पंकज ही परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जिम से जाते समय की गई हत्याशामली। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि यमुनानगर के गांव खेड़ी लक्खासिंह में बृहस्पतिवार को जिम के बाहर बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने पंकज और गोलनी गांव के वीरेंद्र राणा की हत्या की है। बताया कि गिरने के बाद भी आरोपी गोली तब तक मारते रहे, जब तक पंकज मौत नहीं हो गई। मामले को लेकर परिजन एसपी यमुनानगर से भी मिले हैं। एसपी ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है।

To keep the heart healthy, There will be no problem in include 6 red fruits in the conceiving, women should diet, the risk of heart start doing these 5 disease will be reduced yogasanas from today itself? The problem of infertility is increasing in both men and women. Due to lifestyle and eating

Doctors often recommend including colorful fruits and vegetables in our plate. In such a situation, some red fruits can be very beneficial for your heart. These fruits increase the working capacity of the heart (Fruits for Heart Health) and help in keeping heart disease away. Let's know about these fruits. Anthocyanin is found in red fruits. These fruits help in




keeping heart healthy. For heart health, colorful vegetables and fruits should be included in the diet. Red fruits are a treasure trove of nutrition antioxidants. They are very beneficial for keeping heart healthy. These fruits are only not delicious, but protect also against heart

disease. These fruits contain vitamins, fiber, minerals and flavonoids, which control blood pressure and keep the heart safe. In such a situation, if you want to keep your heart young for a long time, then you must eat these red fruits. Let's know about some such red fruits, which will help in keeping your heart healthy. Cherry-Cherry contains anthocyanin and potassium, which control blood pressure and strengthen the heart muscles. The antioxidants present in it improve blood circulation and reduce inflammation. Cherry also reduces the risk of heart attack and stroke. You can include it as a snack or in juice. Raspberry Raspberry is rich in fiber and vitamin C, which reduces bad cholesterol (LDL) and keeps blood pressure healthy. It contains potassium and magnesium, which keep blood pressure under control. Raspberry also helps in reducing inflammation and oxidative stress. Eat it with oats, smoothie or vogurt. Strawberry-Strawberry is an excellent source of potassium, flavonoids and polyphenols. It balances cholesterol levels and helps lower blood pressure. The potassium present in it keeps the heart healthy and increases blood circulation. Include it in salad, shake or breakfast. Pomegranate Pomegranate contains a good amount of antioxidants, fiber and vitamins, which prevent plaque formation in blood vessels. It controls blood pressure and keeps the heart arteries clean. Pomegranate reduces the risk of heart attack by improving blood circulation. It can be eaten in the form of juice or grains. Apple-Red apples contain fiber (pectin) and flavonoids, which control cholesterol and improve heart health. Eat it raw or in salad. Tomato-Tomato contains lycopene, potassium and vitamin C, which help keep the heart healthy. It reduces bad cholesterol and increases the working capacity of blood vessels. Include it in salad, soup or vegetable.

The problem of infertility is increasing in both men and women. Due to lifestyle and eating habits, many such conditions occur which have a direct impact on the fertility of women. In such a situation, some yogasanas suggested by experts (Yoga Poses to Boost Fertility) can help a lot in boosting fertility in women. Let's know about these yogasanas. Fertility can be affected in women due to many reasons. Doing yoga keeps the reproductive organs healthy. Some yogasanas improve the blood flow of reproductive organs. Air pollution, unhealthy lifestyle, stress and medical conditions like PCOS affect the fertility of women. In such a situation, including yoga in your daily routine can be very beneficial to boost fertility. Doing yoga is very beneficial for your health, but it can be of special importance for women, because it boosts their fertility (How to Boost Fertility). Women who do yoga regularly have better fertility than other women and the chances of conception also increase. Dr. Chanchal Sharma (Director

and Gynecologist of Asha Ayurveda) says that some yogasanas (Yoga to Improve Fertility) can help in keeping the reproductive organs of women healthy and boosting fertility. Let's know the names of those yogasanas. Connection between yoga and fertility - Dr. Sharma, while explaining the relationship between yoga and fertility,



said that yoga has no direct connection with fertility, but according to Ayurveda, the role of yogasana is very important in improving your pregnancy. Therefore, women who want to become mothers should definitely do yoga. Nowadays people's lifestyle has become such that they have more desk jobs and sit all day, which affects their health. Stress also affects fertility, so yoga becomes very important. When a woman is under stress, the amount of cortisol in her body increases. Increased levels of cortisol can cause miscarriage. Therefore, yoga should be done to reduce stress. According to a report, women who take less stress are more likely to get pregnant during ovulation days than other women. Regular yoga practice keeps women's hormones balanced, so periods are regular and pregnancy also becomes easy. Nowadays, due to many reasons, cases of infertility have also started increasing. A major reason for this is stress. Due to stress, you may also have problems like depression, anxiety. Regular yoga practice reduces stress and you are able to focus on any work. There are some yogasanas that strengthen your reproductive organs, which helps in a healthy pregnancy. Yogasanas to boost fertility- Supta Baddha Konasana- This increases blood flow in your lower abdomen. Lie on your back, bend your knees and move them from one side to the other and repeat it in the same way. Baddha Konasana- This strengthens your pelvic muscles. Sitting on the ground, bend both legs and take them near the pelvic area and move them like butterfly wings. It is also called Butterfly Asana. Balasana- This improves blood circulation and nervous system inside your stomach. Sitting on the ground on your knees, take both hands forward and try to keep the face close to the ground. Bhujangasana- Lie down on your stomach and bring your hands to the sides of your chest, then slowly lift your upper body upwards with the help of your hands. Take a deep breath while lifting up and exhale while bending down. Utkata Konasana- Open both your legs according to the diameter of your hips, then sit down a little in a squat position and move your hands one by one to both sides. This helps in stress, depression and anxiety management.

Men get these 5 lessons only after their heartbreak, before that it is very difficult to understand the value of love

Society often expects men to suppress their emotions, in such a situation the pain of heartbreak keeps eating them inside. In such a situation, do you know that after heartbreak, men get

many important lessons related to love? Lessons) help them to become a better pain of heartbreak at some point or the heartbreak. There are some things that difficult chapter of life. During this time, else, but this pain of heartbreak usually for men. After heartbreak, they slowly anyone else because it exists within us. The but long term happiness is achieved only you 5 such lessons (Lessons After cheated. 1) Understanding of feelings- In after heartbreak, men not only have to They understand that feelings are a suppressing them. 2) Recognizing oneself about themselves. They realize their they need the most and what they want in decisions in the future. 3) Understanding to understand the depth of relationships. on physical attraction, but it also requires Heartbreak is a big setback in life, but understand that there are ups and downs Where is true happiness-Heartbreak anyone else. Rather it comes from within be happy. Why is it so difficult to



The 5 lessons mentioned in this article (Men Heartbreak person. Let's find out. Everyone in life goes through the other. Men come to know the real value of love after men understand even after being cheated. Heartbreak is a a person often feels lost, as if his happiness is tied to someone teaches many important lessons. This lesson is even deeper start realizing that true happiness does not depend on outside world can give us happiness for a few moments, through self-satisfaction. Come, in this article, we will tell Heartbreak) which men understand only after being society, men are expected to keep their feelings hidden, but understand their feelings but also learn to accept them. beautiful part of being human and there is no benefit in After heartbreak, men come to know many new things weaknesses and strengths. They understand what things life. This self-introspection helps them to take better the importance of relationships After heartbreak, men have They understand that a true relationship is not based only trust, respect and understanding. 4) Accessibilityafter heartbreak men have to learn accessibility. They in life and they have to learn to face every situation. 5) makes men realize that true happiness does not depend on oneself. They understand that one does not need others to understand the value of true love?- It is difficult to

understand the value of heartbreak because a person immersed in love does not realize his weaknesses and flaws. They only see the good qualities of their partner and think that this relationship will last forever, but when the relationship breaks, they realize their mistakes and regret that they had invested so much in this relationship.



Before the release of Baby John, What happened! Fans were watch these top-5 films of Varun shocked to see Angelina Jolie Dhawan on OTT, one created a in such a condition, the bulging ruckus at the box office

Varun Dhawan Top OTT Movies Despite being a star kid, Varun Dhawan has won the hearts of fans with his acting. Soon he will be seen in the action thriller film Baby John, which is



produced by Atlee. Before the release of Baby John, you can easily watch these top-5 movies of Varun's career on OTT. Varun Dhawan will be seen in Baby John- Varun's career shone with these films-Watch his brilliant films on OTT Varun Dhawan, son of veteran Hindi cinema director David Dhawan, is also a great actor apart from being a star kid. With his debut film Student of the Year, made under the banner of producer Karan Johar's Dharma Productions, he proved that he is full of acting skills. In the coming time, he will be seen in the film Baby John. Whose producer is Atlee, director of Shah Rukh Khan's mega blockbuster film Jawaan, which came last year. Before Baby John, you must

watch these 5 films of Varun's career on OTT. Dilwale - Varun Dhawan was seen with Shah Rukh Khan in director Rohit Shetty's action thriller film Dilwale. This movie collected 148 crores at the box office. You can stream this film sitting at home on the OTT platform Netflix. Judwaa 2 In the year 2017, Varun Dhawan was seen in Judwaa 2, the sequel of superstar Salman Khan's cult movie Judwaa. Varun easily won the hearts of fans with his double role in this movie made under Sajid Nadiadwala Production House and according to the report of Bollywood Hungama, his movie did a business of 138 crores at the box office. You can watch Judwaa 2 on the OTT platform Disney Plus Hotstar. Badrinath Ki Dulhania - Varun Dhawan's pairing with actress Alia Bhatt looks very good. Before Judwaa 2, Varun was seen with Alia in Badrinath Ki Dulhania. This romantic comedy film of his has been successful in doing a business of 116 crores at the box office and this film is available on Amazon Prime Video on OTT. ABCD 2 - Varun Dhawan romanced actress Shraddha Kapoor in ABCD 2. This film of his managed to earn more than 105 crores at the box office. If you want to watch this movie on OTT, then you will find Varun's ABCD 2 on the OTT platform Netflix. Badlapur - The film Badlapur proved to be a turning point for Varun Dhawan's acting career. Varun won everyone's heart with his intense look and strong acting in this movie, due to which the low budget film Badlapur was successful in earning 50 crores at the box office. On OTT, this film can be enjoyed on Jio Cinema.

veins on her hand worried her

Hollywood's veteran actress Angelina Jolie has come into the limelight due to her recent appearance. Fans are shocked to see the 49-year-old actress. Her latest photos are going viral on social media. For some time, she was in the news for her divorce with her ex-husband Brad Pitt. Know about her. Angelina Jolie in the news for divorce from Brad Pitt Fans worried



about Angelina Jolie's health-People shocked Angelina Jolie's latest p h o t o s Hollywood's beautiful actress Angelina Jolie always gets into the limelight for some reason or the other. Sometimes she makes headlines for her divorce and controversy with ex-husband **Brad Pitt and**

sometimes for her films. However, at this time she has come into the discussion for her latest appearance. 49-year-old Angelina Jolie is counted among the most beautiful actresses in the world. Her fitness is also unmatched. But her recent photos have upset the fans on social media. The reason for this is her health and latest photos. Veins visible in Angelina Jolie's hands - Actually, in her latest biopic Maria, Angelina Jolie won the hearts of the audience with her brilliant performance. Amidst the promotion of her film, she was spotted on the red carpet of a recent event, where people got upset after seeing her. Fans got upset after seeing Angelina's thin face in a golden color dress and the veins protruding in her hands. Some people say that she is going through a stressful phase due to the difficult divorce going on with her ex-husband Brad Pitt. Angelina Jolie's fans are worried, while some people are calling it Angelina Jolie's tough diet. Not only this, people are even giving diet tips on social media to look like Angelina Jolie. Some people are trolling the actress badly and calling her a vampire. Some fans are advising her to fix her diet. Angelina Jolie's divorce from husband-Angelina Jolie has been in the news for some time regarding her divorce from ex-husband Brad Pitt. First there was a dispute over their divorce and then both went to court in the \$ 500 million winery case. Not only this, there are also reports that Brad Pitt's relationship with the children is not good. Both separated in 2016, but legally both are not separated. Angelina Jolie Work Front-Angelina Jolie's recent biopic Maria has been released, which is based on opera singer Maria Callas. Angelina's film, released on Netflix on December 11, is being liked a lot. The actress' performance is also praiseworthy.

Alia Bhatt's Jigra and sometimes Nayanthara-Dhanush's verbal war, entertainment industry surrounded by these 5 controversies

Only a few days are left for 2024 to end. This year, a lot of new things were seen in the entertainment world, be it the earnings of films or the controversy related to them. Sometimes an artist went viral for his statement, while someone got into legal trouble with his co-stars. Today we are going to tell you about the 5 big controversies of this year. These 5 big controversies happened this year, sometimes the ticket sales of Alia Bhatt's film Jigra and sometimes the Hema Committee report made shocking revelations. The year 2024 was in the name of films

released in theaters and some artists of the records of earning at the box office, some their release. This year, the pan India big budget movies also failed miserably. controversies of the entertainment world time. Hema Committee Report from **Committee Report of the Malayalam film** safety of female actresses. It talked about exploitation and abuse such as immoral out, there was a stir in the industry. After many shocking facts also came to light. found included in it.Kangana Ranaut's Kangana Ranaut's film Emergency. The country's former Prime Minister Indira was a lot of controversy about the film as group approached the High Court over community. Later, the makers of this film the censor board. Jigra-Alia Bhatt's film had a tough competition at the box office 'Vicky Vidya Ka Woh Wala Video'. collection of 'Jigra'. A debate broke out Divya Khosla over the box office collection collection of 'Jigra' in which she said that post, 'Jigra' producer Karan Johar



film industry. While some films broke all the shows got embroiled in controversies even before formula also did not work for the makers and Let us tell you about the 5 big showbiz which remained in discussion for a long Malayalam IndustryThe first is the Hema industry. This report was brought in view of the important aspects related to sexual harassment, demands from female artists. As soon as it came the 233-page report went viral through RTI, The names of many famous people were also **Emergency-At number two is actress and MP** story of this film is said to be inspired by the Gandhi, which is releasing on January 17. There well. When its trailer was released, a religious the inappropriate portrayal of the Sikh decided to remove some scenes after the order of 'Jigra' was released in theaters on 11 October. It from Rajkumar Rao and Tripti Dimri starrer Meanwhile, there was a ruckus over the box office between the film's co-producer Karan Johar and of Jigra. Divya shared a post related to the the film's collection figures are fake. After Divya's retaliated. The actress also claimed that this film

was a copy of her movie Savi.Debate between Nayanthara-Dhanush-Nayanthara's documentary 'Nayanthara: Bevond the Fairvtale' was released on Netflix on 18 November. In this documentary, references were made through many films and videos. Dhanush had also sent a legal notice to the actress regarding this. The actress also responded to this in her social media post. Actually this matter was related to copyright, for which the actor had demanded Rs 10 crore from Nayanthara, because BTS footage of his production 'Naanum Rowdy Dhan' was shown in the documentary without permission. 'Pushpa 2' stampede - Many of you must be aware of the ruckus going on regarding 'Pushpa 2'. On December 4, during the premiere of the film, a stampede in Sandhya Theater led to the death of a woman named Revathi and her 8-year-old son was seriously injured, who is currently admitted in the hospital. A few days after this incident, the actor was also arrested. However, later he got bail from the court. Currently, Hyderabad Police is investigating the matter and the actor was also questioned for 3 hours yesterday. On the other hand, some people also pelted stones at the actor's house, after which he sent his children to a safe place.